

LV Prasad Eye Institute

#SafeDiwali

के लिए ज़रूरी नुस्खे

सुरक्षित दिवाली की तैयारी से बनें 'विज्ञान हीरो'



सुरक्षात्मक चश्मे का
इस्तेमाल करें




आसपास स्वच्छ
जलस्रोत सुनिश्चित करें



आईड्रॉप के साथ प्राथमिक
उपचार का इंतजाम रखें

पटाखों से खतरा: दुष्प्रभाव के प्रकार

सीधा असर



जलना: गर्मी और केमिकल्स से होने वाले गंभीर घाव



चोटें: धूल और धुंए से होने वाली चोटें या ज़ख्म



बाह्य पदार्थ: आँख में फंसे जले हुए कणों से होने वाली तकलीफ़


अप्रत्यक्ष असर



आँखों का लाल होना: धुंए और लपटों से जलन/दर्द होना




जलन: गर्मी और केमिकल से होने वाली असुविधा



आँखों से पानी आना: जलन पैदा करने वाले तत्वों को आँखें धो कर बाहर निकालने का प्रयास करें



प्राथमिक उपचार: ये ना करें



खुद कोई दवा न लें



आंखों को रगड़ें नहीं



तुरंत अस्पताल जाएं


गंभीर रूप से जलने/चोट लगने पर क्या करें

पहला कदम

आंखों को साफ पानी से धोएं

दूसरा कदम

तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल ले जायें, अगर:



आंखों पर कोई दाग या चोट का निशान हो



देखने में परेशानी हो या धुंधला या कम दिखे



आंखों से खून या पानी निकलने पर

गंभीर रूप से जलने या चोट लगने पर



1. जहां चोट लगी हो उसे तुरंत पानी से धोएं

2. जहां चोट लगी हो उसे मुलायम सूती कपड़े से बांधें



3. तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं



#SafeDiwali

मनाने के लिए

हमारे साथ बने रहें